

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]	दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 2019/कार्तिक 17, 1941	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 282
No. 308]	DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2019/KARTIKA 17, 1941	[N.C.T.D. No. 282

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि एवं भवन विभाग

(भूमि अधिग्रहण शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 7 नवम्बर, 2019

फा. सं. 8(32)/17/भू. एवं भव./एल.ए./7986.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 2740(अ) दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव निर्धारण एवं सहमति) नियमावली, 2014 के नियम 4 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा मानव पारिस्थितिकी स्कूल, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली को जिसे उस भूमि के अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव निर्धारण अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिनांक 13 जून 2017 की अधिसूचना सं० फा० 8/2/9/2015/भू. एवं भव./एल.ए./2373 के द्वारा सामाजिक प्रभाव निर्धारण इकाई के रूप में चिन्हित किया गया था, जिसका दिल्ली विकास प्राधिकरण, प्रहलादपुर बांगर गाँव में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए रोहिणी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण करना चाहता है।

इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारण अध्ययन का कार्य मानव पारिस्थितिकी स्कूल, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

तपन झा, उप-सचिव (भूमि एवं भवन)

**LAND AND BUILDING DEPARTMENT****(Land Acquisition Branch)****NOTIFICATION**

Delhi, the 7th November, 2019

**F. No. 8(32)/17/L&B/LA/7986.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact, Assessment and Consent) Rules, 2014, read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification number S.O. 2740(E) dated the 21st October, 2014, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to assign the School of Human Ecology, Ambedkar University, Kashmere Gate Campus, Lothian Road, Kashmere Gate, Delhi -110006 which was identified as Social Impact Assessment Unit *vide* notification No. F. 8/2/9/2015/L&B/LA/2373 dated the 13th June, 2017 to carry out Social Impact Assessment Study and to prepare Social Impact Assessment Report for acquisition of land which the Delhi Development Authority intends to acquire for public purpose of Rohini Project village Prahladpur Banger, New Delhi.

The School of Human Ecology, Ambedkar University, Kashmere Gate Campus, Lothian Road, Kashmere Gate, Delhi -110006 shall carry out the Social Impact Assessment Study as per the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 within a period of six months from the date of issue of this notification.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

TAPAN JHA, Dy. Secy. (L&B)